

तुरंत रिलीज के लिए

2022 के ब्रैम्पटन म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव के लिए, उम्मीदवार नामांकन और तृतीय पक्ष के विज्ञापक रजिस्ट्रेशन 2 मई को खुलेंगे

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (26 अप्रैल, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का क्लर्क का ऑफिस (Clerk's Office), सोमवार, 2 मई को 2022 के ब्रैम्पटन म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव (Brampton Municipal and School Board Election) के उम्मीदवार नामांकन और तृतीय पक्ष के विज्ञापक रजिस्ट्रेशन स्वीकार करना शुरू करेगा।

उम्मीदवारों के लिए नामांकन की अवधि, 19 अगस्त, 2022 को दोपहर बाद 2 बजे खत्म हो जाएगी।

तृतीय पक्ष के विज्ञापकों के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि, 21 अक्टूबर, 2022 को खत्म हो जाएगी।

उम्मीदवारों और तृतीय पक्ष के विज्ञापकों के लिए, आम गाइडलाइंस के बारे में प्रेजेंटेशन, सिटी की [वेबसाइट \(website\)](#) पर उपलब्ध है।

उम्मीदवार

सिटी, निम्नलिखित ऑफिसों के लिए नामांकन स्वीकार करेगी:

- मेयर
- रीजनल काउंसलर
- सिटी काउंसलर
- इनके लिए स्कूल बोर्ड ट्रस्टी:
 - पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (Peel District School Board)
 - डफरिन-पील कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (Dufferin-Peel Catholic District School Board)
 - कॉंसिल स्कॉलर कैथोलिक मोनअवनिर (Conseil scolaire catholique MonAvenir)

सिटी ऑफ मिसिसागा (City of Mississauga) स्कूल बोर्ड ट्रस्टी, कॉंसिल स्कॉलर वायामॉंड (Conseil scolaire Viamonde) के लिए उम्मीदवार नामांकन स्वीकार करेगी।

उम्मीदवारों के लिए नामांकन फार्म और जानकारी पैकेज [ऑनलाइन \(online\)](#) और ब्रैम्पटन सिटी हॉल (Brampton City Hall) में सिटी क्लर्क के ऑफिस में उपलब्ध हैं। फार्म, 2 मई, 2022 से शुरू करते हुए, 19 अगस्त, 2022 तक, कार्यदिवसों को, नियमित ऑफिस

समय के दौरान, सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, खुद आकर (या किसी एजेंट के द्वारा) फाइल किए जाने आवश्यक हैं। नामांकन फार्म फाइल करने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है। कृपया आवश्यक फार्मों, जानकारी पैकेज तक पहुंच के लिए और फाइल करने हेतु अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, www.brampton.ca/BramptonVotes पर जाएं।

फाइल करने के समय, फीस (मेयर के लिए 200.00 डॉलर, अन्य सभी पोजीशनों के लिए, 100.00 डॉलर) लगेगी, जो नकद, डेबिट कार्ड, सर्टिफाइड चेक या मनीऑर्डर के द्वारा भरी जा सकती है। आवेदकों के लिए [नाम और योग्य होने के पते का प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है \(Proof of name and qualifying address\)](#)। केवल असली दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे; फैंक्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वर्जनों की अनुमति नहीं है। सभी संभावी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि, कोई भी कैंपेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने या चुनावों के उद्देश्यों के लिए कोई भी फंड खर्च करने से पहले, अपना नॉमिनेशन पेपर (Nomination Paper) और एन्डोर्समेंट ऑफ नॉमिनेशन (Endorsement of Nomination) फाइल करें। स्कूल बोर्ड ट्रस्टी उम्मीदवारों के लिए, एन्डोर्समेंट ऑफ नॉमिनेशन फार्म फाइल करना जरूरी नहीं है।

तृतीय पक्ष के विज्ञापक

कोई भी व्यक्ति, कार्पोरेशन या ट्रेड यूनियन, जो किसी उम्मीदवार का प्रचार, हिमायत या विरोध करने के लिए, प्रसारण, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी माध्यम से विज्ञापन देना चाहती है, तो उनके लिए सिटी के पास रजिस्टर करना आवश्यक है।

रजिस्ट्रेशन फार्म और जानकारी पैकेज [ऑनलाइन \(online\)](#) और ब्रैम्पटन सिटी हॉल में सिटी क्लर्क के ऑफिस में उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन, 2 मई, 2022 से शुरू करते हुए, 21 अक्टूबर, 2022 तक, कार्यदिवसों को, नियमित ऑफिस समय के दौरान, खुद आकर (या किसी एजेंट के द्वारा) फाइल किए जाने आवश्यक हैं। रजिस्ट्रेशन पेपर फाइल करने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है। कृपया आवश्यक फार्मों, जानकारी तक पहुंच के लिए और फाइल करने हेतु अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, www.brampton.ca/BramptonVotes पर जाएं।

रजिस्ट्रेशन फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह फाइल करने के समय, [मूल पहचान दस्तावेज \(original identification\)](#) पेश करे। जो प्रतिनिधि किसी कार्पोरेशन या ट्रेड यूनियन तृतीय पक्ष के विज्ञापक की तरफ से रजिस्टर करना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह कार्पोरेशन या ट्रेड यूनियन के नियुक्त अफसर का अथॉराइज़ेशन पत्र प्रदान करे। केवल असली दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे; फैंक्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वर्जनों की अनुमति नहीं है। तृतीय पक्ष के विज्ञापकों आवश्यक है कि, कोई भी कैंपेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने या चुनावों के उद्देश्यों के लिए कोई भी फंड खर्च करने से पहले, अपना रजिस्ट्रेशन पेपर फाइल करें।

नामांकित उम्मीदवारों और रजिस्टर्ड तृतीय पक्ष के विज्ञापकों की सूची, नियमित रूप से अपडेट की जाएगी और www.brampton.ca/BramptonVotes पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

हवाला

“सिटी क्लर्क का ऑफिस, सभी संभावी उम्मीदवारों और तृतीय पक्ष के विज्ञापकों को सलाह देता है कि, वे विधान के बारे में और इस बारे में जानकारी प्राप्त करें कि, 2022 के ब्रैम्पटन म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव के दौरान उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। अधिक

जानकारी के लिए, brampton.ca/BramptonVotes पर जाएं या अपने किसी भी सवाल के लिए, 311 पर या bramptonvotes@brampton.ca पर संपर्क करें।”

- पीटर फे (Peter Fay), सिटी क्लर्क और रिटर्निंग अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca